

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – चतुर्थ

दिनांक -23 - 01- 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे ।

### उपसर्ग और प्रत्यय)

#### (उपसर्ग )

**उपसर्ग की परिभाषा** – उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं; जैसे- यश = कीर्ति जब इसके पूर्व में 'अप' उपसर्ग जुड़ जाता है। तो अप+यश = अपयश = बुराई का अर्थ हो जाता है। हिन्दी के प्रमुख उपसर्गों के उदाहरण देखिए

**आ** – आजन्म, आगमन, आकर्षण, आदान, आकण्ठ आदि

**उपे** – उपवन, उपग्रह, उपनाम, उपधर्म, उपयोग, उपसर्ग आदि

**परि** – परिजन, परिच्छेद, परिक्रमा, परितोष, परिवार आदि

**अप** – अपयश, अपवाद, अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति आदि –

**अव** – अवगुण, अवतार, अवनति, अवज्ञा आदि – प्रसिद्ध, प्रयोग, प्रताप, प्रबल, प्रश्वास, प्रवचन आदि

**परा** – पराजय, पराभव, पराधीप, परास्त आदि अनु – अनुकूल, अनुचर, अनुसार, अनुमान आदि

**निर्** – निराकार, निर्भय, निर्जीव, निर्दोष, निर्मल आदि

**दुर** – दुर्बुद्धि, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्मति, दुराशा आदि

#### प्रत्यय

**प्रत्यय की परिभाषा** – प्रत्यय वे शब्दांश हैं, जो शब्द के अन्त में जुड़कर उसके अर्थ व अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं; 'प्रभु' शब्द के अन्त में जब 'ता' प्रत्यय लग जाता है तो 'प्रभुता' शब्द बन जाता है।

**अतः** प्रभुता में 'ता' प्रत्यय है। कुछ अन्य प्रत्ययों से बने उदाहरण देखिए

**ता** – पटुता, लघुता, पंशुता, महत्ता, दासता, प्रभुता

त्व, – चुम्बकत्व, पशुत्व, दासत्व, ईश्वरत्व, लघुत्व, महत्त्व  
इमा – कालिमा, लालिमा, नीलिमा, हरीतिमा  
इक – पारलौकिक, पारिवारिक, तार्किक, मौलिक, भौतिक, नैतिक  
इत – पुष्पित, आनन्दित, हर्षित, प्रफुल्लित, मोहित  
वान – दयावान, धनवान, बलवान, गाड़ीवान, वेगवान  
मान – बुद्धिमान, श्रीमान  
पन – बड़प्पन, पागलपन, बचपन, मोटापन, खोटापन  
ईय – भारतीय, शासकीय, माननीय, शोचनीय  
आहट – कड़वाहट, चिकनाहट, गरमाहट, घबराहट  
पा – बुढ़ापा, मोटापा, छोटापा  
आवट – लिखावट, बनावट, सजावट, दिखावट  
आई – लिखाई, बुनाई, पढाई, सिलाई, मलाई, बुराई  
अक – लेखक, पालक, गायक, पाठक, नायक, सेवक  
इका – लेखिका, पालिका, गायिका, सेविका।  
ना – रोना, खाना, पीना, बेलना, ओढ़ना, बिछौना (UPBoardSolutions.com)  
आ – भूखा, सूखा, रूखा, भूसा, मृगया, रूठा